

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2015/अग्रहायण 26, 1937
No. 329]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2015/AGRAHAYANA 26, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

सं. 50/2015-2020

विषय : सार्वजनिक सूचना सं. 30 (आरई-2012)/2009-2014 दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को रद्द करना ।

फा. सं. 01/89/180/विविध 49/एम-04/पीसी-2 (बी).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 30 (आरई-2012)/2009-2014 दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को रद्द करते हैं जिसके तहत इंडो-म्यांमार सीमा व्यापार के लिए 62 व्यापार योग्य मदों की सूची अधिसूचित की गई थी। सार्वजनिक सूचना सं. 30 (आरई-2012)/2009-2014 दिनांक 16 नवम्बर, 2012 के साथ सार्वजनिक सूचना सं. 289/92-97 दिनांक 10 अप्रैल, 1995 और सार्वजनिक सूचना सं. 106 (आरई-2008)/2004-2009 दिनांक 07 नवम्बर, 2008 को भी रद्द किया जाता है।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव :

मोरेह (मणिपुर) में इंडो-म्यांमार सीमा पर सामान्य व्यापार हो जाने पर, इंडो-म्यांमार सीमा व्यापार से संबंधित सभी सार्वजनिक सूचनाओं को रद्द किया जाता है।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 17th December, 2015

No. 50/2015-2020**Subject: Rescinding of the Public Notice No. 30 (RE-2012)/2009-2014 dated 16th November, 2012.**

F. No. 01/89/180/Misc.49/AM-04/PC-2 (B).—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby rescinds the Public Notice No. 30 (RE-2012)/2009-2014 dated 16th November, 2012 vide which a list of 62 tradable items had been notified for the Indo-Myanmar Border Trade. Along with the Public Notice No. 30 (RE-2012)/2009-2014 dated 16th November, 2012, the Public Notice No. 289/92-97 dated 10th April, 1995 and Public Notice No. 106 (RE-2008)/2004-2009 dated 7th November, 2008 are also rescinded.

2. Effect of this Public Notice:

With the transition to normal trade across Indo – Myanmar Border at Moreh (Manipur), all the Public Notices on Indo - Myanmar Border Trade are rescinded herewith.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade